

प्रेषक,

राधे मोहन श्रीवास्तव,
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी
उत्तर प्रदेश शासन,
विधि कोष्ठक मा०उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा:- श्रीमान् प्रमुख सचिव न्याय, एवं विधि परामर्शी,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

अग्रसारित

30/9/2022

(प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-II)
प्रमुख सचिव
न्याय एवं विधि परामर्शी
उ० प्र० शासन।

संख्या: ए०एल०आर०-ए/जी/विधि-३७४

दिनांक २६-९-२०२२

विषय:- उ०प्र०राज्य के अधीन की गयी सेवाओं को जोड़ने एवं उसका लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अतिविनम्रतापूर्वक ससम्मान आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं वर्तमान में विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, उ०प्र०शासन, विधि कोष्ठक मा०उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पद पर कार्यरत हूँ। उ०प्र०न्यायिक सेवा में मेरा प्रारम्भिक पद एवं पदोन्नति के उपरान्त वर्तमान पद पर कार्य किये जाने से पूर्व मैं उ०प्र०सरकार के अधीन सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में दिनांक ११-५-२००२ से २०-६-२००६ तक कार्यरत था। मेरे द्वारा निदेशक अभियोजन उ०प्र० लखनऊ के आदेश संख्या एक-दो-१३६-२००४/१८७२/०५ दिनांक २६-३-२००५ के अनुपालन में दिनांक ११-४-२००५ की पूर्वाह्न में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर प्रशिक्षणार्थ पदभार ग्रहण किया गया। अपर महानिदेशक अभियोजन उ०प्र० लखनऊ के आदेश संख्या एक-दो-१३६-२००४/५५६८/२००५ दिनांक ३-१०-२००५ के अनुपालन में प्रशिक्षणोपरान्त जनपद प्रतापगढ़ कार्य हेतु प्रस्थान कर वहाँ कार्यरत रहा। उसके उपरान्त उ०प्र० न्यायिक सेवा परीक्षा २००३ के आधार पर सिविल जज (जू० डि०) के पद पर चयन हो जाने के फलस्वरूप अभियोजन निदेशालय उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक एक-दो-ए०पी०ओ०-कार्यमुक्त-२००६/४६२२/०६ दिनांक १६-६-२००६ के अनुपालन में दिनांक २०-६-२००६ को अपराह्न जनपद प्रतापगढ़ से कार्यमुक्त होकर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अधिसूचना संख्या 1093/DR(S)/2006 दिनांक १३-६-२००६ के अनुपालन में दिनांक २१-६-२००६ के पूर्वाह्न में जनपद वाराणसी में अपर सिविल जज (जू० डि०) के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लगातार न्यायिक सेवा में कार्यरत रहकर वर्तमान में उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर उक्त पद पर कार्यरत हूँ।

मैंने सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्य करते हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति से उ०प्र०न्यायिक सेवा परीक्षा में भाग लेकर चयनित होने पर वर्तमान में उ०प्र०न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के पद पर कार्यरत हूँ।

नियमानुसार मेरे द्वारा राज्य सरकार के अधीन सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर दिनांक ११-४-२००५ से दिनांक २०-६-२००६ तक की सेवाओं का लाभ मिलना चाहिये। यह उल्लेखनीय है कि उक्त हेतु मेरे द्वारा पूर्व में भी द्वारा उचित माध्यम दिनांक २०-१२-२००६ एवं १३-६-२००८ को माननीय उच्च न्यायालय को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रतिलिपि संलग्न है।

अतः श्रीमान्जी से विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा उ०प्र०राज्य के अधीन सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में की गयी सेवाओं को वर्तमान सेवा में जोड़ने तथा उसका लाभ प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

(राधे मोहन श्रीवास्तव)

विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी,

उत्तर प्रदेश शासन।

संलग्नक: १-पूर्व में प्रेषित पत्रों की प्रतियां।

२-सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्य हेतु प्रभार प्रमाण पत्र दिनांक ११-४-२००५ एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक २०-६-२००६

३- न्यायिक सेवा में कार्य हेतु प्रभार प्रमाणपत्र दिनांक २१-६-२००६